

Forest Research Centre for Eco- Rehabilitation, Prayagraj
Organized
NATIONAL WORKSHOP
ON
FORESTRY INTERVENTIONS IN ECO-REHABILITATION
3rd March, 2020

National workshop on forestry interventions in Eco-rehabilitation was organized by Forest Research Centre for Eco- Rehabilitation, Prayagraj in the collaboration of Botanical survey of India on 3rd March, 2020, with the theme Current challenges and or key issues on degraded forest rehabilitation in terms of policy, institutional, ecological technical and social economic aspect, Forest researches in ecological rehabilitation, Climate change mitigation and adaptation and Forest Rehabilitation, Policy and institutional aspects of rehabilitation.



Academicians
,Scientists,
Teachers,
Students and
Research
Scholars from
different
Universities,



Institutions of National repute, Post Graduate Degree Colleges, Graduate Degree Colleges, Agriculture Colleges, Representatives of Non Government Organizations, Officials from Forest Department and other Stakeholders participated in this National

Workshop.



The Dignitaries participants of the Workshop were welcomed by the Organizing Secretary, Dr. Kumud Dubey, Scientist, FRCER, Prayagraj. Chief guest Dr. D.K. Roychowdhury Ex. Director, FIMI, Head FRCER, Prayagraj Dr. Sanjay Singh, Organizing secretary of National workshop

Dr. Kumud Dubey Dr. G.P. Sinha Addl. Director, BSI, Prayagraj, Prof. Krishna Misra, IIIT, Prayagraj, Dr. Lalji Singh and other dignitaries lighten the Lamp. The Workshop was officially started through the Welcome address of Dr. Sanjay Singh, Head, FRCER, Prayagraj.





Dignitaries Released the souvenir of National Workshop On Foresry Interventions In Eco-Rehabilitation.



An informal addresses were delivered by Dr. G.P. Sinha Addl. Director, BSI, Prayagraj, Prof. Krishna Misra, IIIT, Prayagraj, Dr. Neeraj Kumar, Executive Officer, National Academy of Sciences, Prayagraj. Dr. Dr. D.K. Chaudhari Director, FIMI, in his Inaugural address enlighten the audience regarding the need of the workshop on Forestry Intervention in Eco Rehabilitation.



The first Technical session was initiated by the plenary lecture of Prof. Lalji Singh, Head College of Forestry IGKV, Raipur. He emphasized on the importance of Productivity and Carbon Accumulation in Tropical dry deciduas forest in Eco-rehabilitation. Dr. Kumud Dubey ,F.R.C.E.R.,Prayagraj presented the Eco-rehabilitation efforts being carried out in Utter Pradesh by FRCER, Prayagraj. Prof.Shivesh Sharma, Biotechnology Department, MNIT, Prayagraj, Role of Rhizospheric microbiome in reclamation.





Dr. Radharani, Biotechnology Department, MNIT, Prayagraj, delivered on the role of Phytoremediation technologies for ecological restoration of degraded ecosystems. Prof. H.K. Pandey, Civil Engineering Dept. MNIT, Prayagraj delivered on the Concept and techniques of rain water harvesting in water stressed condition of Uttar Pradesh. Dr. Sanjay Singh, Head F.R.C.E.R., Prayagraj briefed about Rehabilitation researches going on in India conducted by ICFRE, Dehradun.



The second technical session was strated after lunch. The key note address was delivered by Dr. D.K. Chaudhari Director, FIMI on Environmental Legislation and Applicability for Mining Industry in India and Rehabilitation of Mining Area. Guest speaker Dr. Mridula Tripathi, CMP PG College, Prayagraj, Role of Green Nanotechnology a Future aspects in Rehabilitation. Dr. Sheo Kumar. BSI, Allahabad, Dr. Arati Garg, Scientist, BSI, Prayagraj presented on different aspects of Restoration. Other presenters from different institutions also presented in their paper in both Technical Sessions. Researchers, Ph. D. Students, PG students presented their Posters.





Valedictory session was ended with summarization of the workshop and final recommendations of the National Workshop for Forestry Interventions in Eco-rehabilitations and Vote of Thanks by Dr. Anubha Srivastava.





